



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र 1938 (श10)
(सं० पटना 744) पटना, शुक्रवार, 16 सितम्बर 2016

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद

अधिसूचना

28 जनवरी 2016

सं० 3578—श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी, ग्राम—विराजी टोला, हरिराहा, थाना—करजाईन, अंचल—राघोपुर, जिला—सुपौल पर्वद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—4208 है।

इस न्यास कि प्रबंधन के लिए दिनांक 26.06.2015 को मंदिर प्रांगण में अंचल अधिकारी, राघोपुर, की अध्यक्षता में एक आमसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष, करजाईन भी उपस्थित थे। आम सभा द्वारा न्यास समिति गठन हेतु नौ सदस्यों का चयन किया गया।

अतः श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी, ग्राम—विराजी टोला, हरिराहा, थाना—करजाईन, अंचल—राघोपुर, जिला—सुपौल की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप विधि संख्या 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी, ग्राम—विराजी टोला, हरिराहा, थाना—करजाईन, अंचल—राघोपुर, जिला—सुपौल की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

- अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, विराजी टोला, हरिराहा” होगा।
- श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी, ग्राम—विराजी टोला, हरिराहा, थाना—करजाईन, अंचल—राघोपुर, जिला—सुपौल तथा इसकी समस्त चल—अचल सम्पत्ति तथा आय के प्रबंधन, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी न्यास समिति में निहित होगा।
- इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मन्दिर में परम्परागत पूजा—अर्चना, राग—भोग, उत्सव—समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।
- न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन समिति के अध्यक्ष, सचिव, एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से होगा।

5. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राशि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण किया जायेगा।
6. न्यास समिति के आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी।
7. मन्दिर में आने वाल आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा। कुष्णाष्टमी आदि विशेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।
8. मन्दिर परिसर में भेंट पात्र रखे जायेंगे जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति के दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।
9. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमणमुक्त, यदि हो तो, रखेगी।
10. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राशि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।
11. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक् संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे।
12. न्यास समिति की बैठक सामान्यतः मन्दिर परिसर में होगी। यह बैठक प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार अवश्य होगी।
13. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
14. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि मन्दिर की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
15. उपर्युक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-
 - (1) श्री झपट भिन्दवार, पिता-खम्बी भिन्दवार, पता-विराजी टोला, ग्राम-हरिराहा — अध्यक्ष
 - (2) श्री रामरूप यादव, पिता-स्व० रौंदी यादव, ग्राम- हरिराहा, — उपाध्यक्ष
 - (3) श्री रमण प्रसाद उर्फ कन्हैया दास, ग्राम-मोतीपुर, — सचिव
 - (4) श्री अमरेन्द्र यादव, पिता- स्व० यदु यादव, ग्राम-हरिराहा — कोषाध्यक्ष
 - (5) श्री बाबूनंद यादव, पिता- स्व० भूषाय यादव, ग्राम-हरिराहा — सदस्य
 - (6) श्री महंथी ठाकुर पिता-स्व० भूटाय ठाकुर, ग्राम-हरिराहा — सदस्य
 - (7) श्री सीताराम यादव, पिता-स्व० अयम यादव, ग्राम-हरिराहा — सदस्य
 - (8) श्री सीताराम यादव उर्फ विजल, पिता- स्व० अवधी यादव, ग्राम-हरिराहा — सदस्य
 - (9) श्री शिव नारायण यादव, पिता- स्व० अशर्फी यादव, ग्राम-हरिराहा — सदस्य

यह योजना दिनांक 01.02.2016 से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 वर्षों का होगा। दो स्थान अभी भी रिक्त हैं। एक अनुसूचित जाति और दूसरा अति पिछड़ा वर्ग से नाम न्यास समिति पहली बैठक के एक माह के अन्दर प्रस्ताव पारित कर भेजें।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 744-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>